



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941

No. 239]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 288(ब).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) एवं (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में "कर्नाटक" शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"कर्नाटक"

राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ झूटी पद	100
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मूल्यांकन, कार्य योजना, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं पर्यावरण परिवर्तन)	1

	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं समन्वय)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक एवं भर्ती)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी और परियोजनाएं)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रचार और आईसीटी)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि रिकॉर्ड)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सचिव (वन)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, कर्नाटक वन्यजीव उद्यान प्राधिकरण, मैसूर	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विधि प्रकोष्ठ)	1
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टाइगर परियोजना)	1
	मुख्य वन संरक्षक (टैरीटोरियल)	13
	मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	6
	वन संरक्षक (अनुसंधान)	4
	वन संरक्षक एवं निदेशक, बीआरटी रिजर्व, चामाराजनगर	1
	वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन)	1
	वन संरक्षक (विकास)	1
	वन संरक्षक (बजट एवं लेखा परीक्षा)	1
	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क	1
	निदेशक, बांदीपुरा राष्ट्रीय पार्क	1
	क्षेत्रीय निदेशक, भद्रा टाइगर रिजर्व, चिकमंगलुर	1
	निदेशक, अंशी-डन्डेली राष्ट्रीय पार्क	1
	उप वन संरक्षक, कुदेरमुख वन्यजीव प्रभाग	1

	उप वन संरक्षक, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क	1
	उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग मदीकेरी	1
	उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग शिमोगई	1
	उप वन संरक्षक, कावेरी वन्यजीव प्रभाग कोल्लेगल	1
	उप वन संरक्षक, (टैरीटोरियल)	39
	उप वन संरक्षक, माला महादेशवरा वन्यजीव आभ्यारण्य, कोल्लेगल	1
	उप वन संरक्षक, (प्रशिक्षण)	2
	उप वन संरक्षक, (मुख्यालय)	1
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	100
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं	20
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	25
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	3
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	16
6.	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं	49
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	115
	कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद 6+7)	164''

[सं.16016/01/2017-अ.भा.से.-II(क)]

वसंती वी. बाबू, अवर सचिव

टिप्पणी-1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय वन सेवा कर्नाटक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 164 थी।

टिप्पणी-2: प्रधान विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन), विनियमावली 1966 में सा.का.नि. सं.1072 के अंतर्गत दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना सं0.6/1/66-अ.भा.से.(IV) के तहत अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1.	1673	30.10.66	6.	1083	8.6.68
2.	17	7.1.67	7.	1887	9.8.69
3.	653	6.5.67	8.	80	17.1.70
4.	654	6.5.67	9.	485	21.3.70
5.	689	13.5.67	10.	545	4.4.70

11.	1802	24.10.70	45.	456(अ)	9.5.81
12.	135	24.1.75	46.	360(अ)	23.5.81
13.	136	24.1.71	47.	276(अ)	2.6.81
14.	665	8.5.71	48.	386(अ)	9.6.81
15.	45(अ)	20.1.72	49.	602(अ)	16.11.81
16.	47(अ)	20.1.72	50.	604(अ)	17.11.81
17.	48(अ)	20.1.72	51.	653(अ)	10.12.81
18.	478(अ)	4.12.72	52.	657(अ)	11.12.81
19.	192(अ)	2.4.73	53.	294(अ)	1.4.82
20.	321(अ)	27.6.73	54.	354(अ)	26.4.82
21.	391(अ)	10.8.73	55.	356(अ)	27.4.82
22.	142	24.1.71	56.	778(अ)	31.5.82
23.	28(अ)	8.5.71	57.	530(अ)	20.8.82
24.	273(अ)	11.1.72	58.	24अ	12.1.83
25.	300(अ)	20.1.72	59.	126(अ)	28.2.85
26.	812	29.4.72	60.	308(अ)	26.3.85
27.	2227	16.8.75	61.	327अ	29.3.85
28.	71	17.1.76	62.	489अ	12.6.85
29.	407(अ)	16.6.76	63.	266	12.4.86
30.	1064	24.7.76	64.	654	30.8.86
31.	444 (अ)	6.7.76	65.	763.	20.9.86
32.	750 (अ)	3.8.76	66.	798.	27.9.86
33.	93 (अ)	26.2.77	67.	796	27.9.86
34.	631 (अ)	5.10.77	68.	835	4.10.86
35.	13 (अ)	6.1.78	69.	837	4.10.86
36.	360(अ)	13.7.78	70.	880	18.10.86
37.	436(अ)	29.8.78	71.	164	14.3.87
38.	486(अ)	25.8.80	72.	407	30.5.87
39.	562(अ)	30.9.80	73.	619	15.3.87
40.	626अ	3.11.80	74.	802	31.10.87
41.	631अ	4.11.80	75.	826	7.11.87
42.	21अ	17.1.81	76.	835	14.10.87
43.	31अ	23.1.81	77.	836	14.11.87
44.	84(अ)	27.2.81	78.	432अ	6.4.88

79.	546अ	4.5.88	114.	231	8.6.96
80.	834अ	3.8.88	115.	233	8.6.96
81.	352अ	10.3.89	116.	589अ	26.12.96
82.	553अ	16.5.89	117.	587अ	26.12.96
83.	455	1.7.89	118.	585अ	26.12.96
84.	832	11.11.89	119.	17अ	17.1.97
85.	916	16.12.89	120.	413	20.12.97
86.	933	30.12.89	121.	741अ	31.12.97
87.	590	22.9.90	122.	40	29.1.98
88.	603	29.9.90	123.	617अ	14.1.98
89.	728	8.12.90	124.	372	10.12.99
90.	730	8.12.90	125.	374	10.12.99
91.	125(अ)	5.3.91	126.	824अ	21.10.2000
92.	246	13.4.91	127.	827अ	21.10.2000
93.	473	24.8.91	128.	830अ	21.10.2000
94.	527	14.9.91	129.	141	27.04.2002
95.	565	5.10.91	130.	143	27.04.2002
96.	584	19.10.91	131.	139	27.04.2002
97.	538(अ)	6.8.93	132.	145	27.04.2002
98.	685(अ)	4.11.93	133.	147	27.04.2002
99.	687(अ)	4.11.93	134.	372	21.09.2002
100.	514	22.10.94	135.	173	26.04.2003
101.	513	22.10.94	136.	34 (अ)	24.01.2006
102.	321अ	31.3.95	137.	287(अ)	16.05.2006
103.	213	29.4.95	138.	289 (अ)	16.05.2006
104.	278	10.6.95	139.	562(अ)	15.09.2006
105.	264	6.6.95	140.	564(अ)	15.09.2006
106.	339	22.7.95	141.	566(अ)	15.09.2006
107.	375	12.8.95	142.	724(अ)	23.11.2006
108.	480	18.11.95	143.	703(अ)	12.08.2007
109.	479	18.11.95	144.	765(अ)	12.12.2007
110.	503	2.12.95	145.	609(अ)	26.08.2008
111.	537	9.12.95	146.	109(अ)	21.02.2008
112.	75अ	5.2.96	147.	610(अ)	26.08.2008

113.	77अ	5.2.96	148.	716(अ)	03.10.2008
149.	748(अ)	21.10.2008	170.	609(अ)	06.09.2013
150.	190(अ)	24.03.2009	171.	611(अ)	06.09.2013
151.	193(अ)	24.03.2009	172.	651(अ)	24.09.2013
152.	194(अ)	24.03.2009	173.	515(अ)	18.07.2014
153.	498(अ)	07.07.2009	174.	103(अ)	16.02.2015
154.	500(अ)	07.07.2009	175.	520(अ)	30.06.2015
155.	502(अ)	07.07.2009	176.	530(अ)	02.07.2015
156.	504(अ)	07.07.2009	177.	708(अ)	16.09.2015
157.	506(अ)	07.07.2009	178.	792(अ)	12.08.2016
158.	503(अ)	07.07.2009	179.	1104अ	30.11.2016
159.	905(अ)	18.12.2009	180.	1106अ	30.11.2016
160.	907(अ)	18.12.2009	181.	171(अ)	27.02.2017
161.	909(अ)	18.12.2009	182.	179(अ)	28.02.2017
162.	911(अ)	18.12.2009	183.	205(अ)	08.03.2017
163.	406(अ)	14.05.2010	184.	261 (अ)	17.03.2017
164.	673(अ)	11.08.2010	185.	1002 (अ)	08.08.2017
165.	143(अ)	16.03.2012	186.	1035(अ)	18.08.2017
166.	145(अ)	16.03.2012	187.	1451(अ)	18.08.2017
167.	216(अ)	16.03.2012	188.	1536(अ)	21.12.2017
168.	218(अ)	16.03.2012	189.	1586(अ)	27.12.2017
169.	672(अ)	06.09.2012	190.	510(अ)	29.05.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of Karnataka hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :-

- (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2019

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, in the Schedule, for the heading "Karnataka" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

“Karnataka

SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT		100
Principal Chief Conservator of Forests & HoFF		1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)		1
Principal Chief Conservator of Forests (Evaluation, Working Plan, Research, Training & Climate Change		1
Principal Chief Conservator of Forests (Development)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Resources Management)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration and Coordination)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel & Recruitment)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Research		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry and Projects)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Publicity and ICT)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Land Records)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests & Secretary(Forests)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests & Member Secretary, Zoo Authority of Karnataka, Mysuru		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Human Resource Development)		1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Legal Cell)		1

	Additional Principal Chief Conservator of Forests(Project Tiger)	1
	Chief Conservator of Forests, (Territorial)	13
	Chief Conservator of Forests, (Working Plan)	6
	Conservator of Forests (Research)	4
	Conservator of Forests & Director, BRT Reserve, Chamarajanagar	1
	Conservator of Forests (Forest Resource Management)	1
	Conservator of Forests (Development)	1
	Conservator of Forests (Budget & Audit)	1
	Director, Rajiv Gandhi National Park	1
	Director, Bandipura National Park	1
	Field Director, Bhadra Tiger Reserve, Chickamagalur	1
	Director, Anshi-Dandeli National Park	1
	Deputy Conservator of Forests, Kudermukh Wild Life Division	1
	Deputy Conservator of Forests, Bannerghatta National Park	1
	Deputy Conservator of Forests, Wild Life Division Madikeri	1
	Deputy Conservator of Forests, Wild Life Division Shimoggai	1
	Deputy Conservator of Forests, Cauveri Wild Life Division Kollegal	1
	Deputy Conservator of Forests (Territorial)	39
	Deputy Conservator of Forests, Mala Mahadeshwara Wild Life Sanctuary, Kollegal	1
	Deputy Conservator of Forests (Training)	2
	Deputy Conservator of Forests (Head Quarters)	1
1.	Total Senior Duty Posts	100
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 20% of Item 1 above	20
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above	25
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	3
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	16

6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding 33 1/3 % of Item 1, 2, 3 and 4 above	49
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6)	115
	Total Authorised Strength (Item 6+7 above)	164

[No.16016/01/2017 - AIS-II (A)]
VASANTHI V. BABU, Under Secy.

Note-1: Prior to the issue of this Notification, the total Authorized Strength of the IFS cadre of Karnataka was 164.

Note-2: The Principal regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS (IV), dated 31-10-1966 vide GSR No.1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966, and subsequently been amended, vide notifications given below:-

Sl. No.	GSR No.	Date of Publication	Sl. No.	GSR No.	Date of Publication
1.	1673	30.10.66	41.	631E	4.11.80
2.	17	7.1.67	42.	21E	17.1.81
3.	653	6.5.67	43.	31E	23.1.81
4.	654	6.5.67	44.	84(E)	27.2.81
5.	689	13.5.67	45.	456(E)	9.5.81
6.	1083	8.6.68	46.	360(E)	23.5.81
7.	1887	9.8.69	47.	276(E)	2.6.81
8.	80	17.1.70	48.	386(E)	9.6.81
9.	485	21.3.70	49.	602(E)	16.11.81
10.	545	4.4.70	50.	604(E)	17.11.81
11.	1802	24.10.70	51.	653(E)	10.12.81
12.	135	24.1.75	52.	657(E)	11.12.81
13.	136	24.1.71	53.	294(E)	1.4.82
14.	665	8.5.71	54.	354(E)	26.4.82
15.	45(E)	20.1.72	55.	356(E)	27.4.82
16.	47(E)	20.1.72	56.	778(E)	31.5.82
17.	48(E)	20.1.72	57.	530(E)	20.8.82
18.	478(E)	4.12.72	58.	24E	12.1.83
19.	192(E)	2.4.73	59.	126(E)	28.2.85
20.	321(E)	27.6.73	60.	308(E)	26.3.85
21.	391(E)	10.8.73	61.	327E	29.3.85
22.	142	24.1.71	62.	489E	12.6.85
23.	28(E)	8.5.71	63.	266	12.4.86
24.	273(E)	11.1.72	64.	654	30.8.86
25.	300(E)	20.1.72	65.	763.	20.9.86
26.	812	29.4.72	66.	798.	27.9.86
27.	2227	16.8.75	67.	796	27.9.86
28.	71	17.1.76	68.	835	4.10.86
29.	407(E)	16.6.76	69.	837	4.10.86
30.	1064	24.7.76	70.	880	18.10.86
31.	444 (E)	6.7.76	71.	164	14.3.87
32.	750 (E)	3.8.76	72.	407	30.5.87
33.	93 (E)	26.2.77	73.	619	15.3.87
34.	631 (E)	5.10.77	74.	802	31.10.87
35.	13 (E)	6.1.78	75.	826	7.11.87
36.	360(E)	13.7.78	76.	835	14.10.87
37.	436(E)	29.8.78	77.	836	14.11.87
38.	486(E)	25.8.80	78.	432E	6.4.88

39.	562(E)	30.9.80	79.	546E	4.5.88
40.	626E	3.11.80	80.	834E	3.8.88
81.	352E	10.3.89	133.	147	27.04.2002
82.	553E	16.5.89	134.	372	21.09.2002
83.	455	1.7.89	135.	173	26.04.2003
84.	832	11.11.89	136.	34 (E)	24.01.2006
85.	916	16.12.89	137.	287(E)	16.05.2006
86.	933	30.12.89	138.	289 (E)	16.05.2006
87.	590	22.9.90	139.	562(E)	15.09.2006
88.	603	29.9.90	140.	564(E)	15.09.2006
89.	728	8.12.90	141.	566(E)	15.09.2006
90.	730	8.12.90	142.	724(E)	23.11.2006
91.	125(E)	5.3.91	143.	703(E)	12.08.2007
92.	246	13.4.91	144.	765(E)	12.12.2007
93.	473	24.8.91	145.	609(E)	26.08.2008
94.	527	14.9.91	146.	109(E)	21.02.2008
95.	565	5.10.91	147.	610(E)	26.08.2008
96.	584	19.10.91	148.	716(E)	03.10.2008
97.	538(E)	6.8.93	149.	748(E)	21.10.2008
98.	685(E)	4.11.93	150.	190(E)	24.03.2009
99.	687(E)	4.11.93	151.	193(E)	24.03.2009
100.	514	22.10.94	152.	194(E)	24.03.2009
101.	513	22.10.94	153.	498(E)	07.07.2009
102.	321E	31.3.95	154.	500(E)	07.07.2009
103.	213	29.4.95	155.	502(E)	07.07.2009
104.	278	10.6.95	156.	504(E)	07.07.2009
105.	264	6.6.95	157.	506(E)	07.07.2009
106.	339	22.7.95	158.	503(E)	07.07.2009
107.	375	12.8.95	159.	905(E)	18.12.2009
108.	480	18.11.95	160.	907(E)	18.12.2009
109.	479	18.11.95	161.	909(E)	18.12.2009
110.	503	2.12.95	162.	911(E)	18.12.2009
111.	537	9.12.95	163.	406(E)	14.05.2010
112.	75E	5.2.96	164.	673(E)	11.08.2010
113.	77E	5.2.96	165.	143(E)	16.03.2012
114.	231	8.6.96	166.	145(E)	16.03.2012
115.	233	8.6.96	167.	216(E)	16.03.2012
116.	589E	26.12.96	168.	218(E)	16.03.2012
117.	587E	26.12.96	169.	672(E)	06.09.2012
118.	585E	26.12.96	170.	609(E)	06.09.2013
119.	17E	17.1.97	171.	611(E)	06.09.2013
120.	413	20.12.97	172.	651(E)	24.09.2013
121.	741E	31.12.97	173.	515(E)	18.07.2014
122.	40	29.1.98	174.	103(E)	16.02.2015
123.	617E	14.1.98	175.	520(E)	30.06.2015
124.	372	10.12.99	176.	530(E)	02.07.2015
125.	374	10.12.99	177.	708(E)	16.09.2015
126.	824E	21.10.2000	178.	792(E)	12.08.2016
127.	827E	21.10.2000	179.	1104E	30.11.2016
128.	830E	21.10.2000	180.	1106E	30.11.2016
129.	141	27.04.2002	181.	171(E)	27.02.2017
130.	143	27.04.2002	182.	179(E)	28.02.2017

131.	139	27.04.2002	183.	205(E)	08.03.2017
132.	145	27.04.2002	184.	261 (E)	17.03.2017
185.	1002 (E)	08.08.2017	188.	1536(E)	21.12.2017
186.	1035(E)	18.08.2017	189.	1586(E)	27.12.2017
187.	1451(E)	18.08.2017	190.	510(E)	29.05.2018